**OSWAL OVERSEAS LIMITED** CIN No: - L74899DL1984PLC018268

Regd. Office: 98A, Second Floor, Namberdar Estate, Taimoor Nagar, New Delhi - 110065 Phone No:- 011-41064256, Fax No: - 011- 26322664, E-mail:- cs@oswaloverseasltd.com Website:- www.oswaloverseasltd.com EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND VEAR ENDED ON 31 03 2024

		Quarter	Quarter	Quarter	(F Year	Rs. in Lakh Year
Sr. No 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Particulars	ended on 31.03.2024	ended on 31.03.2023	ended on 31.12.2023	ended on 31.03.2024	ended on 31.03.2023
		Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited
1.	Total income from operations (net)	3778.95	6849.44	6215.81	15208.29	21016.27
2.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax					
	(before Extraordinary items)	112.35	1475.06	294.06	-510.59	579.52
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax					
	(after Extraordinary items)	342.45	972.10	259.81	-544.84	74.53
4.	Other Comprehensive income	0.30	0.13	0.78	3.05	2.32
5.	Net Profit/ Loss	342.74	972.23	260.59	-541.79	76.85
6.	Equity Share Capital	646.11	646.11	646.11	646.11	646.11
7.	No. of Equity Shares of Rs. 5/- each	12922100	12922100	12922100	12922100	12922100
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown					
	in the Balance Sheet)	-	-	-	-2062.35	-1518.03
9.	Earnings Per Share (before extraordinary items)					
	(face value of Rs. 10/- each)					
	Basic :	2.65	7.52	2.02	-4.19	0.59
	Diluted:	2.65	7.52	2.02	-4.19	0.59

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulation, 2015. The full format of the quarterly and yearly financial results is available or the website of BSE Limited and the website of the company (www.oswaloverseasltd.com).

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2024 Sugar Industry is a seasonal industry where crushing normally takes place during the period between November and April, while sales are
- distributed throughout the year. The performances of the company vary from quarter to quarter. Pursuant to the provisions of section 115BAA of Income Tax Act 1961, as announced by the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 and promulgated as the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 enacted on 11th December, 2019 with effect from 1st April, 2019, domestic companies have an option to pay income tax at the concessional rate by foregoing certain exemptions / deductions ('the new tax regime') as
- Based on the assessment of the possible impact of the new tax regime, the Company has decided to continue with existing tax structure till certain deductions are available and accumulated Minimum Alternate Tax (MAT) credit is substantially exhausted and thereafter to opt for new

For Oswal Overseas Limited Paramjeet Singh

Standalone

Place: New Delh Date : 30.05.2024

specified in the said section

(Managing Director DIN: 00313352

Sd/

### PREMIER ENERGY AND INFRASTRUCTURE LIMITED Regd. Office: Ground Floor, Tangy Apartments, 34, Dr P.V. Cherian Road, Egmore, Chennai-600 008.

Phone No. 044 - 28270041 Emai id: premierinfra@gmail.com CIN:L45201TN1988PLC015521 Extract of Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2024

				Standalone		
SI.	Particulars	(	Quarter Ended	t	Year I	Ended
No.	1 4111041410	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2022
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Income	1.54		1,429.44	501.34	1,429.44
2	Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items	(54.74)	(25.77)	759.98	44.79	657.81
3	Profit / (Loss) (before Tax after Exceptional items)	(54.54)	(25.77)	760.07	44.99	657.90
4	Profit / (Loss) (after Tax, after Exceptional items)	(54.54)	(25.77)	760.07	44.99	657.90
5	Total Comprehensive Income for the year	(54.54)	(24.77)	760.07	44.99	657.90
6	Equity Share Capital	4135.01	4135.01	4135.01	4135.01	4135.01
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown					
	in the Audited Balance Sheet of the previous year					(970.70)
8	Earnings per Share (of Rs. 10/ each))					
	a) basic	(0.13)	(0.06)	1.84	0.11	1.59
	b) Diluted	(0.13)	(0.06)	1.84	0.11	1.59
				Consolidated	1	
SI		(	Quarter Ended			Ended
SI. No.	Particulars	31.03.2024				Ended 31.03.2023
	Particulars		Quarter Ended	d	Year I	
	Particulars Income	31.03.2024	Quarter Ended	31.03.2023	Year I 31.03.2024	31.03.2023
<b>No.</b> 1		31.03.2024 Audited	Quarter Ended	31.03.2023 Audited	Year I 31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
<b>No</b> .	Income	31.03.2024 Audited 1.54	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited 1,429.44	Year I 31.03.2024 Audited 501.34	31.03.2023 Audited 1,429.95
No. 1 2 3 4	Income Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items)	31.03.2024 Audited 1.54 (97.86)	31.12.2023 Unaudited - (35.89)	31.03.2023 Audited 1,429.44 746.67 746.76 746.76	Year I 31.03.2024 Audited 501.34 (32.74)	31.03.2023 Audited 1,429.95 623.06 623.15 623.15
No. 1 2 3 4 5	Income Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items) Profit / (Loss) (before Tax after Exceptional items) Profit / (Loss) (after Tax, after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the year	31.03.2024 Audited 1.54 (97.86) (97.66)	31.12.2023 Unaudited - (35.89) (34.35)	31.03.2023 Audited 1,429.44 746.67 746.76	Year I 31.03.2024 Audited 501.34 (32.74) (32.54)	31.03.2023 Audited 1,429.95 623.06 623.15 623.15 623.15
No. 1 2 3 4 5	Income Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items) Profit / (Loss) (before Tax after Exceptional items) Profit / (Loss) (after Tax, after Exceptional items)	31.03.2024 Audited 1.54 (97.86) (97.66) (104.25)	31.12.2023 Unaudited - (35.89) (34.35) (34.35)	31.03.2023 Audited 1,429.44 746.67 746.76 746.76	Year I 31.03.2024 Audited 501.34 (32.74) (32.54) (39.13)	31.03.2023 Audited 1,429.95 623.06 623.15 623.15 623.15 4135.01
No.  1 2 3 4 5 6 7	Income Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items) Profit / (Loss) (before Tax after Exceptional items) Profit / (Loss) (after Tax, after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the year Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve)	31.03.2024 Audited 1.54 (97.86) (97.66) (104.25) (105.79)	31.12.2023 Unaudited - (35.89) (34.35) (34.35) (34.35)	31.03.2023 Audited 1,429.44 746.67 746.76 746.76 746.76	Year I 31.03.2024 Audited 501.34 (32.74) (32.54) (39.13) (39.13)	31.03.2023 Audited 1,429.95 623.06 623.15 623.15 623.15
No. 1 2 3 4 5	Income Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items) Profit / (Loss) (before Tax after Exceptional items) Profit / (Loss) (after Tax, after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the year Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings per Share (of Rs. 10/ each))	31.03.2024 Audited 1.54 (97.86) (97.66) (104.25) (105.79) 4135.01	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited - (35.89) (34.35) (34.35) (34.35) 4135.01	31.03.2023 Audited 1,429.44 746.67 746.76 746.76 4135.01	Year   31.03.2024 Audited   501.34   (32.74)   (32.54)   (39.13)   (39.13)   4135.01	31.03.2023 Audited 1,429.95 623.06 623.15 623.15 623.15 4135.01 (407.36)
No.  1 2 3 4 5 6 7	Income Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional items) Profit / (Loss) (before Tax after Exceptional items) Profit / (Loss) (after Tax, after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the year Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve)	31.03.2024 Audited 1.54 (97.86) (97.66) (104.25) (105.79)	31.12.2023 Unaudited - (35.89) (34.35) (34.35) (34.35)	31.03.2023 Audited 1,429.44 746.67 746.76 746.76 746.76	Year I 31.03.2024 Audited 501.34 (32.74) (32.54) (39.13) (39.13)	31.03.2023 Audited 1,429.95 623.06 623.15 623.15 623.15 4135.01

Note: a. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the Quarterand year ended 31st March 2024. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's websit www.premierenergy.in

> For Premier Energy and Infrastructure Limited M Narayanamurthi DIN: 00332455

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED MAY 20, 2024. AND THE LETTER OF OFFER DATED MAY 21, 2024 FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF



Place · Chennai

Date : May 30, 2024

### SHARDUL SECURITIES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L50100MH1985PLC036937 Registered Office: G-12, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, Mumbai - 400021; Tel. No.: +91 22 46032806 / 22-46032807: Contact Person: Daya Bhalia, Company Secretary & Compliance Officer;

Email id: investors@shriyam.com; Website: www.shardulsecurities.com

This Corrigendum to the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer, dated May 30, 2024 ("Corrigendum") is being ssued by Saffron Capital Advisors Private Limited ("Manager to the Offer") for and on behalf of A To Z Broking Services LLF ("Promoter Acquirer 1"), Rajesh Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 2"), Gagan Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 3") and Brijesh Devesh Chaturvedi ("Promoter Acquirer 4") (Hereinafter 'Promoter Acquirer 1', 'Promoter Acquirer 2', 'Promoter 3', Acquirer 3' and 'Promoter Acquirer 4' Collectively Referred to as "Promoter Acquirers"), to the public shareholders of Shardul Securities Limited ("Company") in respect of the acquisition of up to 44.02.626 (Forty Four Lakhs Two Thousand Six Twenty Six) ("Offer Shares") equity shares of face value Rs. 10/- each ("Equity Shares") representing 25.16% of the paid up Equity Shares Capital of the Company and consequent voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from the BSE Limited ("BSE"), the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed, pursuant to applicable provisions of the SEBI Delisting Regulations ("Delisting Offer") and in accordance with the terms and conditions set out in the Initial Public Announcemer

Edition) and the Letter of Offer dated May 21, 2024 ("LOF"). The Promoter Acquirers vide their email dated May 29, 2024, had requested the Manager to the Offer to create a fixed deposit for the amount lying in the escrow account. Accordingly, a fixed deposit for an amount of ₹35,00,00,000/- (Rupees Thirty Five Crore) lying in the escrow account was created and a lien was marked in favour of the Manager to the Offer. Further, Kotak Mahindra Bank Limited (Escrow Bank) vide its email dated May 30, 2024, has provided confirmation on the creation of Fixed Deposit. Accordingly, Public Shareholders are requested to kindly refer to below revised point in Detailed Public Announcement (20.4) and the Letter o

dated December 15, 2023 ("IPA"), the Detailed Public Announcement dated May 20, 2024 published on May 21, 2024 ("DPA") in

Business Standard (English-All Editions), Business Standard (Hindi – All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi – Mumba

Accordingly, the aggregate amount of ₹ 68,35,57,000/- (i.e. More than 100% of the total consideration which is calculated on the basis of the Equity shares held by the Public Shareholders multiplied with the indicative price) is deposited in the Escrow account. Further, out of total cash deposited in the escrow account, a fixed deposit of ₹ 35,00,00,000/- (Rupees Thirty Five Crore) is created and a lien has been marked in favour of the Manager to the Offer on the said fixed deposit.

Public Shareholders are also requested to note that while remitting the remaining amount of Total Consideration i.e. ₹ 40,00,00,000/-(Rupees Forty Crore) into the Escrow Account on May 18, 2024, the amount was inadvertently remitted by the Acquirers to their other bank account, held with same Escrow Bank at the same branch where the Escrow Account is also held. The same was rectified and the funds were remitted to the Escrow Account on May 28, 2024.

This Corrigendum is being published in all the newspapers in which the DPA was published.

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning as assigned to them in the LOF.

### Manager to the Offer SAFFRON

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, 6th floor, Centre Point, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andher (East), Mumbai - 400 059, Maharashtra, India.

Tel. No.: +91 22 4973 0394; Fax: N.A. E-mail id: delistings@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com

Investor grievance id: investorgrievance@saffronadvisor.com Validity of Registration: Permanent Contact Person: Saurabh Gaikwad / Satej Darde SEBI Registration Number: INM 000011211

### Registrar to the Offer **LINK** Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400 083

Tel: +91 810 811 4949; Fax: +91 22 49186060 **E-mail:**shardul.delisting@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Pradnya Karanjekar SEBI Registration No.: INR000004058 Validity Period: Permanent Registration

On the Behalf of Promoter Acquirers

Sd/-Pravin Mundhwa

Signed by Pravin Mundhwa, for and on behalf of the Promoter Acquirers, holding Specific Power of Attorney dated 17

November, 2023 Place: Mumbai, Date: May 30, 2024



### **BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED**

Reg Off: A-5 Pannamgadu Industrial Estate, Ramapuram Post, Nellore District, Andhra Pradesh 524401 Corp.Off: 443, Anna Salai, Teynampet, Chennai 600018 Ph: +91 44 24301000, Fax: +91 44 24364656

Corporate Identity Number: L40106AP1985PLC005318 Email: compliance@bgrenergy.com website: www.bgrc **EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS** 

	FOR THE QUARTER AND YE	AR END	DED MAI	RCH 31,	, 2024	(=	₹ in Lakhs)
		ALONE		CONSOLIDATED			
SI.	Quarter ended		Year	ended	Year ended		
No.	Particulars	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	17001	10667	101221	80627	101236	80627
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	13300	(28226)	(67680)	(63519)	(68544)	(64444)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	13300	(28226)	(67680)	(63519)	(68544)	(64444)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13297	(21090)	(75215)	(47854)	(76080)	(48780)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	13828	(21069)	(74669)	(47872)	(75535)	(48798)
6.	Equity Share Capital (Face value Rs.10/- each, fully paid)	7216	7216	7216	7216	7216	7216
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)						
	1. Basic: Rs.	18.43	(29.23)	(104.23)	(66.32)	(105.07)	(67.21)
	2. Diluted: Rs.	18.43	(29.23)	(104.23)	(66.32)	(105.07)	(67.21)

### Notes:

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the respective meetings held on May 29, 2024 and May 30, 2024, respectively.

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website

For BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED

Place: Chennai Ariun Govind Raghupath Date : May 30, 2024 Managing Directo



VIPUL LIMITED Regd, Office: Unit No. 201, C-50, Malviva Nagar, Delhi-110017

Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.ir

Extract of Standalone Audited Financial Results for the 4th quarter & year ended March 31, 2024 (₹ In Lakhs except Earnings per share FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023 **Particulars** 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 Unaudited Audited Audited Audited Audited Total Income from operations 23,791.22 14,791.60 1,060.62 40,172.53 4,696.0 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exception and/or Extraordinary items) 23.040.01 8.247.75 (6,561.86) 29.201.45 (10,015.51) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptions and/or Extraordinary items) 23.040.01 8.247.75 (6.591.86 29.201.45 (19,478.66 Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptions and/or Extraordinary items) 6,422.43 (19,478.66) Equity Share Capital 1.199.84 1.199.84 1.199.84 1.199.84 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) 20,439.34 6,422.43 (6,561.69 24,775.45 (19,448.49 Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discounted operations) - Basic 17.01 5.35 (5.49)20.63 (16.23)17.01 5.35 20.63 xtract of Consolidated Audited Financial Results for the 4th quar 31. 2024 Total Income from operations 24,969.49 1,177.86 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptiona 28,992.95 23,198.72 8,142.94 (761.77 (1,474.55) and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptiona (10,937.70) and/or Extraordinary items) 22.924.40 8.142.94 (791.77 28,718.64 Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional 20.271.86 6.317.62 (11,733.80) and/or Extraordinary items) (692.49)23,350.04 Equity Share Capital 1,199.84 1.199.84 1.199.84 1.199.84 1,199.84 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (aftertax) 20.297.31 6.317.62 (662.89) 23.375.49 (11,704.20) Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discounted operations) (0.58)19 46 5.27 16.90 (0.58)

The above as an extract of the detailed format of financial results for the 4th quarter and year ended March 31, 2024 (Standalone and Consolidated ed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd., under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the financial results for the 4th guarter and year ended March 31, 2024 is available o e websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website i.e. www.vipulgroup.in. he above Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the 4th quarter and year ended March 31, 2024 have been reviewed by t Audit Committee and on their recommendation have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 30, 2024 rough audio visual means of communication.

The above results have been prepared in accordance with recognitions and measurements principles laid down in Ind AS prescribed under 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. These results will be made available on the Company's website viz www.vipulgroup.in and websites of BSE Limited and National Stock Exchanc

For and on behalf of the Board

Date: May 30, 2024 Place: Gurugram

Vipul Limite Punit Beriwa Managing Director, CEO & CFO

### SecureKloud Technologies Limited

REGD OFF: NO. 37 & 38, ASV RAMANA TOWERS, 5TH FLOOR, VENKAT NARAYANA ROAD, T, NAGAR, CHENNAI 600 017 PH: 044 66028000 | EMAIL: CS@SECUREKLOUD.COM | WEBSITE: WWW.SECUEKLOUD.COM | CIN: L72300TN1993PLC101852 STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED MARCH 31, 2024

			3 months ende	d	Year e	ended
	Particulars	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23
	. unududo	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	1,050.34	1,081.81	1,154.93	5,073.33	6,107.60
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(375.61)	82.91	(90.87)	95.79	(272.37)
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,208.22)	82.91	(90.87)	(2,736.82)	(272.37)
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,150.35)	51.41	(63.62)	(2,781.26)	(273.31)
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)	(3,140.99)	45.90	(69.57)	(2,769.00)	(267.88)
6	Equity Share Capital (face value of INR 5/- each)	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)				6,264.60	9,033.54
8	Earnings per share (Face value of INR 5/- each)					
	(i) Basic (Rs.)	(9.40)	0.14	(0.21)	(8.29)	(0.81)
	(ii) Diluted (Rs.)	(9.40)	0.14	(0.21)	(8.29)	(0.80)

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / YEAR ENDED MARCH 31, 2024

			3 months ende	d	Year ended		
	Particulars	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	6,049.71	8,794.77	10,665.51	34,194.07	46,050.40	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(4,988.70)	(1,296.16)	(3,036.28)	(9,511.29)	(9,926.79)	
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4,988.70)	(1,296.16)	(3,036.28)	(9,511.29)	(9,926.79)	
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4,934.26)	(1,346.07)	(2,621.82)	(9,582.36)	(9,875.52)	
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)	(4,924.88)	(1,346.07)	(2,633.32)	(9,570.09)	(9,875.64)	
6	Equity Share Capital (face value of INR 5/- each)	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53	
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)				(3,269.63)	5,074.80	
8	Earnings per share (Face value of INR 5/- each)			·			
	(i) Basic (Rs.)	(5.19)	(1.65)	(2.46)	(10.86)	(14.62)	
	(ii) Diluted (Rs.)	(5.19)	(1.65)	(2.45)	(10.86)	(14.54)	

### Note:

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 30, 2024. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) viz., www.nseindia.com and www bseindia.com and the Company viz., www.securekloud.com

The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote 3. Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules

whichever is applicable.

For SecureKloud Technologies Limited Srinivas Mahankali

Whole-time director and Chief Business Officer DIN: 01884823

Chander Mukhi, Nariman Point Mumbai – 400 021 Tel. 022-66387680, FAX 022-22044336,

Web Site: www.centralbankofindia.co.in Central Bank of India invites Request for Proposal (RFP) videTende Ref No.: CO/HCM/IRP/2024-25/02 dated 31.05.2024 for "Éngagement of Yoga Service Provider for ONLINE YOGA SERVICES TO EMPLOYEES OF CENTRAL BANK OF INDIA". For complete details please visit Bank's website www.centralbankofindia.co.in unde ive Tenders

Last Date for submission of RFP is 21 June 2024.

Place: Mumbai Date: 31.05.2024

(PRIYANKA MITRA) Assistant General Manager IRP-Human Capital Management

### TTVS MOTOR COMPANY LIMITED Registered Office: "Chaitanya" No.12 Khader Nawaz Khan Road Nungambakkam Chennai - 600006 CIN: L35921TN1992PLC022845 Website: tvsmotor.com

Email: contactus@tvsmotor.com Ph:044 28332115 Notice of loss of share certificates

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders / the legal heirs of the registered holders thereof have applied to the company for issue

or duplicate	snare cerunc	aie(s)		
Follo no.	Share cert. nos.	No. of shares	Distinctive nos.	Name of registered holder
K09492	9368	1071		KAMINI BHANUDAS DIVKAR RAJESH BHANUDAS DIVKAR
				1 11 1

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the

above share certificates. Any person(s) who has/have any claims) in respect of the said share certificates should lodge such claims) with the company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificates

For TVS Motor Company Limited Place: Chennai Company Secretary



(CIN: L24231KA1979PLC003563)

Regd. Office: Block N1, 12th Floor, Manyata Embassy Business Park, Rachenahalli, Outer Ring Road, Bangalore - 560 045 Email: comp secv@astrazeneca.com Web: www.astrazeneca.com/india Tel: +91 80 6774 8000, Fax: +91 80 6774 8557

### **NOTICE TO MEMBERS**

Notice is hereby given that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read together with the Companies (Management and Adminstration) Rules, 2014 (the 'Rules), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations') (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 and the subsequent circulars issued in this regard, the latest one being 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars")and any other applicable laws and regulations, the Company is seeking approval of its members by way of Postal Ballot voting (only through remote evoting) for the businesses as set out in the Postal Ballot Notice dated May 27, 2024 together with the Explanatory Statement relating thereto:

### **Ordinary Resolutions:**

- 1. Approval of Material Related Party Transactions to be entered into by the Company with AstraZeneca UK Limited.
- Approval of Material Related Party Transactions to be entered into by the Company with AstraZeneca AB, Sweden.

The Company is pleased to offer its members the facility to cast their vote by electronic means through e-voting facility provided by National Secutities Depository Limited ('NSDL') in compliance with Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules framed thereunder and Regulation 44 of the Listing Regulations

The Company will be sending the Postal Ballot Notice by e-mail on Friday, May 31. 2024 only to those members, who have registered their e-mail addresses with the Company's Registrar and Share Transfer Agent or their respective Depository Participants as on Friday, May 24, 2024 (cut off date). In compliance with the requirements of the MCA Circulars, hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the members for this Postal Ballot and the members are required to communicate their assent or dissent though the remote e-voting system only.

Details of the process and manner of remote e-voting along with the User ID and password are provided over email to all members who have registered their email

Members whose email addresses are not registered, but mobile numbers are available, SMS are being sent to members by Integrated Registry Management Services Private Limited containing the weblink for downloading the Notice. Please treat this Notice as our attempt to reach all our members who have missed or not received other communication on this subject matter and intend to participate in proposed remote e-voting

Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Notice may get their email address registered with the RTA, by clicking the link: https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx and following the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email address, the Member will receive soft copy of the Notice and the procedure for remote e-voting along with the User ID and the Password to enable remote e-voting for this Notice. In case of any queries, members may write to giri@integratedindia.in.

Members are also requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depositories /Depository Participant and in respect of physical holdings with the RTA.

With regard to the process of registration of email address with the RTA, members may get their email address registered with the RTA, by clicking the link: https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx and following the registration process as guided thereafter. Otherwise, members are requested to send a request communication between 9.00 am and 5.00 pm on all working days (except Saturday and Sunday) till 48 hours prior to the closure of the voting period to the following email address of the Company or RTA, by quoting the Folio No. / Demat account No. The email address of the Company and the contact details are comp.secy@astrazeneca.com/ 080 67748000 and RTA's email address and the  $contact \ details \ are \ giri@integrated in dia. in / \ 080\ 23460815-18.$ 

The e-voting period commences on Saturday, June 1, 2024 (9:00 am IST) and ends on Sunday, June 30, 2024 (05:00 pm IST). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or demat form, as on **Friday, May** 24, 2024 (the 'cut-off date') may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and the voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on the Resolution is exercised and confirmed by the members, he or she shall not be allowed to modify it subsequently. Any recipient of the Postal Ballot Notice who was not a member of the Company as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only. The voting rights of members shall be in porportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

The Postal Ballot Notice and manner of e-voting process can be downloded from the website: www.evoting.nsdl.com or www.astrazeneca.com/india

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Vijayakrishna K.T, Practising Company Secretary, Bengaluru, C.P. No. 980, Membership No. FCS: 1788, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process, in a fair and

The result of voting conducted through Postal Ballot (through remote e-voting process) will be announced on or before Tuesday, July 2, 2024 at the Registered office of the Company by placing the results of the remote e-voting and the Scrutinizer's report on the Company's website at www.astrazeneca.com/india and will be communicated to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.


The last date specified by the Company for remote e-voting shall be the date on which the Resolutions shall be deemed to have been passed, if approved by the requisite

In case of any queries relating to voting by electronic means, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.com. Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. Soni Singh, Assistant Manager or Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 or at 022 - 4886 7000/022 - 2499

For AstraZeneca Pharma Inida Limited

Place: Bengaluru Date: May 27, 2024

Manasa, R **Company Secretary** 







Place: Chennai

Date: 30.05.2024





# ब्याज दर कटौती पर बाजार को डर

सेंसेक्स- निफ्टी में लगातार 5वें दिन आई गिरावट, अक्टूबर के बाद गिरावट का सबसे लंबा सिलसिला

मुंबई, 30 मई

चमार्क सूचकांकों में गुरुवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट आई। कारण कि मौद्रिक नीति की सख्ती और चुनाव नतीजों की चिंता निवेशकों को परेशान करती रही। सेंसेक्स 617 अंक टटकर 73.886 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी ने 216 अंकों की गिरावट के साथ 22,489 पर कारोबार की समाप्ति की। बीएसई में सूचीबद्ध फर्मों का कुल बाजार पूंजीकरण 4.7 लाख करोड़ रुपये घटकर 410 लाख करोड़ रुपये रह गया।

दोनों ही सूचकांकों के लिए पांच दिन से लगातार गिरावट अक्टूबर 2023 के बाद सबसे लंबा सिलसिला है। पिछले एक हफ्ते में निवेशकों में घबराहट है और चुनाव नतीजे आने से पहले वे बाजार से रकम निकाल रहे हैं।

चुनाव के दौरान मतदान के कम प्रतिशत ने मतदाताओं की सुस्ती और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के मार्जिन पर इसके असर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह भय भी बढ़ा है कि अगर सहज बहमत से कम मिला तो नीतिगत कदम अटक जाएंगे। बाजारों ने चुनाव के दौरान तेजी दर्ज करते समय इसकी उम्मीद की थी। विश्लेषकों ने कहा कि अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सामान्य बहुमत लाने में नाकाम रहती है तो यह बाजारों के लिए झटका होगा क्योंकि बाजार ने सत्ताधारी पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने



की उम्मीद कर रखी है।

इन घरेलू कारकों के अलावा कमजोर वैश्विक संकेतों ने भी मनोबल पर असर डाला। वैश्विक स्तर पर निवेशक सख्त मौद्रिक नीति को लेकर चिंतित हैं। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी का यील्ड पिछले दो कारोबारी सत्र में 15 आधार अंक चढ़कर करीब एक साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया।

अमेरिका में महंगाई का मुख्य आंकड़ा जारी होने से पहले दरों में कटौती को लेकर उम्मीदें फीकी पड़ रही हैं। अमेरिका में व्यक्तिगत उपभोग खर्च (पीसीई) प्राइस इंडेक्स अप्रैल में सालाना 2.7 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने

• सेंसेक्स ६१७ अंक टूटकर 73,886 पर बंद हुआ जबिक निफ्टी ने 216 अंकों की गिरावट के साथ 22,489 पर कारोबार की समाप्ति की

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 3,050 करोड़ रुपये के शुद्ध बिकवाल रहे जबिक देसी संस्थागत निवेशकों ने 3,433 करोड रुपये के शेयर खरीदे

की उम्मीद है जो मार्च में भी इतना ही था।

फेडरल रिजर्व के अधिकारी ब्याज कटौती से पहले महंगाई के 2 फीसदी के लक्षित स्तर के लिए और सबतों पर पहले से ही जोर देते आ रहे हैं।इस बीच, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा के अध्यक्ष राफेल बोस्टिक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक इस साल के अंत तक ब्याज कटौती पर विचार करेगा।

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बेंचमार्क इंडेक्स अमेरिकी बाजार से संकेत ले रहा है क्योंकि वैश्विक महंगाई में मजबती के कारण ट्रेजरी यील्ड लगातार चढ़ रहा है जिससे केंद्रीय

बैंक की ब्याज कटौती की नीति में देर हो रही है। इस बीच, मुनाफावसुली की अगुआई में व्यापक बाजारों में कमजोरी का रुझान जारी रहा। सप्ताहांत में एग्जिट पोल के रुझान भी आने हैं। आगे चलकर अमेरिकी महंगाई के आंकडों के अलावा उपभोक्ता की आय और चीन के विनिर्माण आंकड़े बाजारों को भावी संकेत देंगे।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्र ने कहा कि हालिया गिरावट ने सकारात्मक रफ्तार में बाधा डाल दी है और निफ्टी अपने अल्पावधि के मुविंग एवरेज 20 डीईएमए से नीचे गिर गया है। 22,400 का स्तर टूटने के बाद यह और गिरकर 22,000-22,150 तक आ सकता है। हम ट्रेड इसी के मुताबिक करने और हेजिंग अपनाने की सलाह दे रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 3,050 करोड़ रुपये के शुद्ध बिकवाल रहे जबिक देसी संस्थागत निवेशकों ने 3,433 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इस महीने एफपीआई देसी बाजारों से अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं।

सेंसेक्स के दो तिहाई से ज्यादा शेयर गिरावट के साथ बंद हए। रिलायंस इंडस्टीज में 1.1 फीसदी की गिरावट आई और इंडेक्स की गिरावट में इसका योगदान सबसे ज्यादा रहा जिसके बाद इन्फोसिस का स्थान रहा जो 1.8 फीसदी टूटा। चढ़ने और गिरने वाले शेयरों का अनुपात कमजोर बना रहा और 2,733 शेयर टूटे जबिक 1,098 में बढ़ोतरी दर्ज हुई।

# भाजपा जीती तो हर हफ्ते 2 अरब डॉलर तक का एफपीआई निवेश

पनीत वाधवा नई दिल्ली, 30 मई

लोक सभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो भारतीय शेयरों में विदेशी निवेश (एफपीआई) फिर से आ सकता है। नोम्रा के विश्लेषकों का अनुमान है कि जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किए जाने की तारीख (28 जून) तक उनका साप्ताहिक निवेश डेट मार्केट में 1 से 2 अरब डॉलर रह सकता है। दसरी ओर, अगर भाजपा 2024 का चनाव जीतने में नाकाम रहती है तो नोमरा को कछ हफ्तों में 30 अरब डॉलर से ज्यादा के विदेशी निवेश की निकासी की आशंका है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक के भारी हस्तक्षेप की दरकार होगी।

नोमूरा के नाथन श्रीबालासुंदरम ने हालिया नोट में कहा कि अप्रैल में बिकवाली के बाद आरबीआई ने हाल में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा बहाल किया है। हालांकि यह आवक अभी कम है। यह निवेश पुंजी खाते के निवेश का करीब से अनुसरण करता है। इक्विटी और बॉन्ड में एफपीआई का निवेश इसमें इजाफा कर रहा है। हमें लगता है कि यह पूरी तरह चुनाव नतीजों की झलक देता है। भाजपा की जीत की स्थिति में हमें डॉलर वापस आने की उम्मीद है और चुनाव से इंडेक्स में शामिल किए जाने की तारीख तक हर सप्ताह करीब 1 से 2 अरब डॉलर निवेश आने का अनुमान है।

नोमुरा के अनुसार आगामी हफ्तों में अंतरबैंक नकदी बढ़ाने के लिए आरबीआई विदेशी विनिमय में हस्तक्षेप कर सकता है। उसका कहना है कि यह मोटे तौर पर चुनाव नतीजों से संचालित होगा। नोमूरा ने कहा कि पिछले हफ्तों में एफपीआई ने छोटे आकार में सरकार के बॉन्ड में खरीद बहाल की है।

नोम्रा के श्रीबालासुंदरम ने कहा कि हालांकि विदेशी

मुद्रा के इस रास्ते के अलावा हमें भरात सरकार के रीडम्पशन, ब्याज भुगतान और कम ट्रेजरी बिल जारी होने से निवेश आता दिखना शुरू होना चाहिए। हमें लगता है कि अंतरबैंक नकदी जुलाई तक सरप्लस में आ जाएगी। इस परिदृश्य में अगर चुनाव का जोखिम आया तो (भाजपा सरकार नहीं बना पाई)विदेशी मुद्रा के रास्ते काफी ज्यादा निकासी होगी (दो ही हफ्तों में 30 अरब डॉलर से ज्यादा)। तब आरबीआई के भारी हस्तक्षेप की दरकार होगी।

### इंडेक्स में शामिल होना

इस बीच, विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण प्रतिभतियों में मई के दौरान शुद्ध आधार पर 7,400 करोड़ रुपये का निवेश किया है जबकि अप्रैल 2024 में उन्होंने शुद्ध रूप से 11,200 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। यह निवेश मुख्य रूप से भारतीय सरकारी बॉन्ड को जेपी मॉर्गन सरकारी बॉन्ड इंडेक्स - उभरते बाजार में जन 2024 में शामिल किए जाने की उम्मीद से हुआ है। इस भारांक के साथ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 30 अरब डॉलर का निवेश हासिल कर सकता है। जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किए जाने के अलावा भारतीय प्रतिभृतियां ब्लूमबर्ग ईएम लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में भी शामिल की जा सकती हैं. जिसमें 34 भारतीय प्रतिभतियां शामिल होने की आशा है। इसके जनवरी 2025 में 10 फीसदी शुरुआती भारांक के साथ होने की संभावना है।

बैंक ऑफ बडौदा की अर्थशास्त्री जहान्वी प्रभाकर ने कहा, इसके साथ ही भारतीय रुपया कंपोनेंट के हिसाब से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुद्रा होगी, जिससे पहले चीन रेममिनबी और दक्षिण कोरिया की वॉन होगी। कल मिलाकर हमें उम्मीद है कि यह इक्विटी व डेट में 40-45 अरब डॉलर का एफपीआई निवेश लाएगा।

# टीपीजी ने आरआर केबल की हिस्सेदारी बेची

प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी एशिया ने गुरुवार को इलेक्टिक केबल और वायर की विनिर्माता आरआर केबल में अपनी पुरी 5 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी। टीपीजी ने 1.701.1 रुपये प्रति शेयर पर 56.3 लाख शेयर बेचकर 958 करोड़ रुपये जुटाए। खरीदारों में मिरे ऐसेट म्युचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एडलवाइस फंड और ज्यूपिटर इंडिया फंड शामिल हैं। आरआर केबल का शेयर 1,717 रुपये पर बंद हुआ।

जनरल अटलांटिक ने बेचा केफिन टेक का हिस्सा

जनरल अटलांटिक ने गुरुवार को केफिन टेक्नोलॉजिज की 5.85 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी, जो म्युचुअल फंड उद्योग के लिए रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट के तौर पर काम करती है। जनरल अटलांटिक ने 713 रुपये के भाव पर 1 करोड़ शेयर बेचे और 713 करोड़ रुपये जुटाए। खरीदारों में सोसियाते जेनराली, अबरदीन एएमसी और मॉर्गन स्टैनली शामिल हैं। केफिन टेक का शेयर 9 फीसदी गिरकर 679 रुपये पर बंद हुआ। जनरल अटलांटिक, केफिन की प्रवर्तक इकाई है, जिसके पास हिस्सा बिक्री से पहले केफिन की करीब 39 फीसदी हिस्सेदारी थी।

### आगाज पर ऑफिस में 9 फीसदी की बढ़त

ऑफिस स्पेस सॉल्युशंस का शेयर गुरुवार को एक्सचेंजों में सुचीबद्धता पर इश्य प्राइस के मुकाबले 9 फीसदी चढा। कंपनी का शेयर 18 फीसदी तक चढ गया था लेकिन बिकवाली के बीच अंत तक उसने आधी बढत गंवा दी। यह शेयर एनएसई पर अपने इश्यू प्राइस 383 रुपये के मुकाबले 8.6 फीसदी की बढ़त के साथ 416 रुपये पर बंद हुआ जहां 602 करोड़ रुपये के शेयरों का कारोबार हुआ। ऑफिस स्पेस के 471 करोड़ रुपये के आईपीओ को करीब

100 गुना बोली मिली थी। आखिरी बंद भाव पर कंपनी का मुल्यांकन 2,888 करोड़ रुपये बैठता है। 31 दिसंबर, 2023 को 16 शहरों में कंपनी के 169

## आईपीओ से 4,000 करोड़ रुपये जुटाएगी

दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प की वित्तीय सेवा इकाई हीरो फिनकॉर्प आईपीओ लाने की योजना बना रही है। इस निर्गम में 4,000 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे। साथ ही ओएफएस भी होगा। अभी इस कंपनी में हीरो मोटोकॉर्प की करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी है जबिक प्रवर्तक मुंजाल फैमिली के पास कंपनी का 35-40 फीसदी हिस्सा है। प्राइवेट इक्विटी निवेशकों अपोलो ग्लोबल और क्रिसकैपिटल के पास भी इसकी इक्विटी है। हीरो फिनकॉर्प मुख्य रूप से दोपहिया के लिए कर्ज देती है और हीरो मोटोकॉर्प के 2,000 रिटेल टचप्वाइंटों का फायदा उठाती है। साथ ही उसकी मौजूदगी अफोर्डेबल हाउसिंग, एजुकेशन लोन व एसएमई सेगमेंट में भी है।

### एनएसई ने पेश किया ईवी इंडेक्स

सूचकांक प्रदाता एनएसई इंडाइसेज ने गुरुवार को न्यू थिमेटिक इंडेक्स निफ्टी ईवी ऐंड न्यू ऐज ऑटोमोटिव इंडेक्स के नाम से पेश किया। 33 शेयरों वाला इंडेक्स उन कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं या नई पीढ़ी के ऑटोमोटिव वाहन या संबंधित तकनीक विकसित करने में शामिल हैं। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और मारुति सुजूकी इस इंडेक्स की चार अग्रणी कंपनियां हैं। इंडेक्स के लिए आधारभूत तारीख 2 अप्रैल, 2018 है और बेस वैल्यू 1,000

# आरआईएल, एयरटेल 'मोदी स्टॉक्स' में शामिल

सीएलएसए

की रिपोर्ट

■इन शेयरों ने

दिसंबर 2023 से

शानदार प्रदर्शन

**■** चुनाव परिणाम

उत्साहजनक रहा

शेयरों में तेजी बनी

तो इस श्रेणी के

रह सकती है

किया है

पुनीत वाधवा नई दिल्ली. 30 मई

सीएलएसए के विश्लेषकों ने अपनी ताजा रिपोर्ट में मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल), सुनील मित्तल नियंत्रित भारती एयरटेल, इंडस टावर्स और ओएनजीसी, गैस लिमिटेड (आईजीएल), एनएचपीसी जैसे खास सरकारी उपक्रमों के शेयरों को 'मोदी स्टॉक्स' का नाम दिया है। इन शेयरों ने पिछले 6 महीनों में निफ्टी-50 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। सीएलएसए का कहना है कि

निफ्टी में 14 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले मोदी स्टॉक्स में औसत तेजी पिछले 6 महीनों में 50 प्रतिशत रही है। यदि बाजार 4 जून को सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में मजबूत चुनाव परिणाम से उत्साहित हुआ तो इस श्रेणी के शेयरों में तेजी बनी रह सकती है। चनावी उत्साह जानने के लिए सीएलएसए ने उन 183 शेयरों



का विश्लेषण किया जहां सक्रिय वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) ने उन्हें भारतीय शेयर बाजार का तेजी व्यापक नहीं रही। अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में

## मोदी शेयर क्या हैं?

मदद की।

पिछले 6 महीनों के दौरान जहां निफ्टी-50 सूचकांक करीब 14 प्रतिशत चढा है वहीं इस सची के 183 में करीब 44 प्रतिशत शेयरों ने निफ्टी के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया जिससे संकेत मिलता है कि

सीएलएसए के विकास कुमार जैन, आदर्श अग्रवाल और हेमंत कोठारी ने एक ताजा रिपोर्ट में कहा, 'हम विश्लेषण कर उन शेयरों को अलग कर दें जिन्हें लोकप्रिय रूप से संभावित नीतिगत उपायों का सबसे अधिक प्रत्यक्ष लाभार्थी माना जाता है बशर्ते कि तीसरे कार्यकाल

मजबत बहमत वाली सरकार बने। चुंकि ये शेयर विभिन्न क्षेत्रों में धारणाओं के आधार पर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए आसानी के लिए हम इन्हें 'मोदी शेयर' कह रहे हैं। ये शेयर पूंजीगत खर्च और बुनियादी ढांचा केंद्रित क्षेत्र, सरकारी उपक्रमों या कुछ कॉरपोरेट घरानों से जुड़े हैं।'

रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमने इन 183 में से 54 शेयरों की पहचान मोदी शेयरों के रूप में की है। दिलचस्प बात यह है कि इन 54 में से सिर्फ 5 शेयरों का प्रदर्शन ही पिछले 6 महीने में कमजोर रहा, जिसका मतलब है। कि करीब 90 प्रतिशत मोदी शेयरों ने पिछले 6 महीनों के दौरान निफ्टी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।'

सीएलएसए ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से होने के बावजूद एफऐंडओ सेगमेंट के सभी 27 पीएसयू शेयरों ने पिछले 6 महीनों के दौरान निफ्टी को पीछे छोड़ दिया है। 27 गैर-

में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पीएसयू मोदी शेयरों में सभी (पांच सीमेंट कंपनियों को छोड़कर ) ने इस अवधि के दौरान निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि पिछले 6 महीने में कीमतों में उतार-चढ़ाव सिर्फ इस चुनावी थीम पर आधारित रहा है।

कोठारी, जैन और अग्रवाल ने लिखा है, 'इसका यह भी मतलब है कि शेष 129 शेयरों में 58 प्रतिशत ने इस अवधि के दौरान निफ्टी से कमजोर प्रदर्शन किया।'

मोदी शेयरों की श्रेणी में सीएलएसए इंडिया के विश्लेषकों ने पीएसयू क्षेत्र में ओएनजीसी, एनटीपीसी. एनएचपीसी. एसबीआई, पावर फाइनैंस. आईजीएल और महानगर गैस को पसंद किया है। वहीं गैर-पीएसयू मोदी शेयरों में सीएलएसए के विश्लेषकों को अशोक लीलैंड. अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन ऐंड टुब्रो और शल्क वृद्धि से जुड़े दूरसंचार शेयरों - भारती एयरटेल, इंडस टावर्स और आरआईएल को पसंद

# मानकों में बदलाव लाए क्लियरिंग कॉरपोरेशन

खुशबू तिवारी मुंबई, 30 मई

पुष्ट-1 का शेष

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन (सीसी) को नकदी, सावधि जमाओं और बैंक गारंटी के जरिये बैंकों में अपने लेनदेन में बदलाव लाने का निर्देश दिया है। नए मानकों के अनुसार, एएए रेटिंग वाले बैंकों के लिए सभी लिक्विड एसेट को ध्यान में रखते हुए किसी बैंक में एक्सपोजर अब पिछले तीन महीने के औसत दैनिक लेनदेन के 15 प्रतिशत के अंदर रहना चाहिए। वहीं एए रेटिंग वाले बैंकों के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। बाजार नियामक ने एक्सपोजर के लिए बैंकों के चयन के संबंध में वित्त, पूंजी पर्याप्तता, दीर्घावधि क्रेडिट रेटिंग जैसे मानकों के आधार पर अन्य नियम भी तय किए हैं।

एक्सपोजर से संबंधित मानकों में बदलाव के साथ साथ बाजार नियामक ने सीसी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले मौजदा कॉलेटरल में भी बदालाव किए हैं।

नकदी, बैंक एफडी, बैंक गारंटी, लिक्विड म्युचुअल फंडों या सरकारी प्रतिभृतियों की यूनिट को लिक्विड ऐसेट

लाल सागर में उथल-पुथल, महंगे होंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल

## सेटलमेंट के जुर्माने पर सेबी के दिशानिर्देश

खुशबू तिवारी मुंबई, 30 मई

बाजार नियामक सेबी ने सेटलमेंट कैलकुलेटर जारी किया है। इसका मकसद सेटलमेंट प्रोसिडिंग्स रेग्युलेशन के तहत चुकाई जाने वाली रकम को लेकर पारदर्शिता लाना है।

अगर नियामक ने आदेश पारित कर दिया है या कार्यवाही शुरू कर दी है तो कोई भी इकाई निपटान के लिए याचिका दे सकता है। नियमों के तहत कोई इकाई रकम का भुगतान कर मामला निपटा सकती है जो सेबी की समिति के फैसले के मुताबिक होगा।

सेटलमेंट कैलकुलेटर के बीटा वर्जन के लिए जारी दिशानिर्देश के तहत पहली बार के आवेदकों के लिए सांकेतिक रकम 3 लाख रुपये से शुरू होगी जबिक अन्य के लिए यह 7 लाख रुपये हैं। पहली बार का आवेदन उसे माना जाएगा, जिसके खिलाफ पहले कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। निपटान के लिए सांकेतिक रकम डिफॉल्ट की संख्या पर आधारित होगी और यह संयुक्त या अलग भी हो सकती है।

### CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED MAY 20, 2024, AND THE LETTER OF OFFER DATED MAY 21, 2024 FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF



SHARDUL SECURITIES LIMITED Corporate Identification Number (CIN): L50100MH1985PLC036937 Registered Office: G-12, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, Mumbai - 400021;

Tel. No.: +91 22 46032806 / 22-46032807; Contact Person: Daya Bhalia, Company Secretary & Compliance Officer; Fmail id: investors@shrivam.com: Website: www.shardulsecurities.com

This Corrigendum to the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer, dated May 30, 2024 ("Corrigendum") is being sued by Saffron Capital Advisors Private Limited ("Manager to the Offer") for and on behalf of A To Z Broking Services LLI ("Promoter Acquirer 1"), Rajesh Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 2"), Gagan Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 3") and Brijesh Devesh Chaturvedi ("Promoter Acquirer 4") (Hereinafter 'Promoter Acquirer 1', 'Promoter Acquirer 2', 'Promote Acquirer 3' and 'Promoter Acquirer 4' Collectively Referred to as "Promoter Acquirers"), to the public shareholders of Shardul Securities Limited ("Company") in respect of the acquisition of up to 44,02,626 (Forty Four Lakhs Two Thousand Six Twenty Six) ("Offer Shares") equity shares of face value Bs. 10/- each ("Fquity Shares") representing 25.16% of the paid up Equity Shares apital of the Company and consequent voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from the BSE Limited ("BSE"), the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed, pursuant to applicable provisions of the SEBI Delisting Regulations ("Delisting Offer") and in accordance with the terms and conditions set out in the Initial Public Announcemen dated December 15, 2023 ("IPA"), the Detailed Public Announcement dated May 20, 2024 published on May 21, 2024 ("DPA") in Business Standard (English-All Editions), Business Standard (Hindi – All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi – Mumb Edition) and the Letter of Offer dated May 21, 2024 ("LOF").

The Promoter Acquirers vide their email dated May 29, 2024, had requested the Manager to the Offer to create a fixed deposit for the amount lying in the escrow account. Accordingly, a fixed deposit for an amount of ₹35,00,00,000/- (Rupees Thirty Five Crore) lying in the escrow account was created and a lien was marked in favour of the Manager to the Offer. Further, Kotak Mahindra Bank Limited (Escrow Bank) vide its email dated May 30, 2024, has provided confirmation on the creation of Fixed Deposit. Accordingly, Public Shareholders are requested to kindly refer to below revised point in Detailed Public Announcement (20.4) and the Letter of Offer (21.4) respectively.

Accordingly, the aggregate amount of ₹ 68,35,57,000/- (i.e. More than 100% of the total consideration which is calculated on the basis of the Equity shares held by the Public Shareholders multiplied with the indicative price) is deposited in the Escrow account. Further, out of total cash deposited in the escrow account, a fixed deposit of ₹ 35,00,00,000/- (Rupees Thirty Five Crore) is reated and a lien has been marked in favour of the Manager to the Offer on the said fixed deposit

Public Shareholders are also requested to note that while remitting the remaining amount of Total Consideration i.e. ₹ 40,00,00,000/-(Rupees Forty Crore) into the Escrow Account on May 18, 2024, the amount was inadvertently remitted by the Acquirers to their other bank account, held with same Escrow Bank at the same branch where the Escrow Account is also held. The same was rectified and the funds were remitted to the Escrow Account on May 28, 2024

Registrar to the Offer

Mumbai- 400 083

**LINK** Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West).

E-mail:shardul.delisting@linkintime.co.ir Website: www.linkintime.co.in

Contact Person: Pradnya Karanjekar

SEBI Registration No.: INR000004058

Validity Period: Permanent Registration

Tel: +91 810 811 4949; Fax: +91 22 49186060

This Corrigendum is being published in all the newspapers in which the DPA was published Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning as assigned to them in the LOF.

Manager to the Offer

SAFFRON

E-mail id: delistings@saffronadvisor.com

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, 6th floor, Centre Point, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andhe (East), Mumbai - 400 059, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 4973 0394; Fax: N.A.

Website: www.saffronadvisor.com Investor grievance id: investorgrievance@saffronadvisor.com Validity of Registration: Permanent Contact Person: Saurabh Gaikwad / Satei Darde SEBI Registration Number: INM 000011211

On the Rehalf of Promoter Acquirers

Pravin Mundhwa

Signed by Prayin Mundhwa, for and on behalf of the Promoter Acquirers, holding Specific Power of Attorney dated 17 Place: Mumbai. Date: May 30, 2024

JKCement जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड

सीआइएन : L17229UP1994PLC017199 पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर—208001, उ.प्र. टेलीफोन: +91 512 2371478 फैक्स: +91 512 2332665 ईमेल : shambhu.singh@jkcement.com वेब : www.jkcement.com

दावा रहित/भुगतान रहित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अंतरण के पूर्व इक्विटी शेयरहोल्डर्स/सदस्यों को सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दावा रहित या भुगतान रहित लाभांश वर्तमान में कंपनी के पास हैं, और इन्हें सितम्बर 2024, के प्रथम सप्ताह में आई ई पी एफ को अंतरित किया जाना प्रस्तावित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि, कंपनी के उन इंक्विटी शेयरों को, जिनके लाभांश का दावा या भूगतान लगातार सात वर्षों या अधिक समय से नहीं किया गया है, को कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) में अनिवार्य रूप से अंतरित किया जाना अपेक्षित है, इससे सबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर " Information about IEPF" सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एतत सबंधित सूचना, सभी सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से, उनके रजिस्टर्ड पते पर भेजी जा चुकी है।

सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने दावे लिखित रूप में कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेण्ट, NSDL Database Management Limited (NDML)  $\mathbf{4}^{t}$ Floor, Tower 3, One International Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai- 400 013 को दिनांक 31 अगस्त, 2024 तक भेज

यदि कंपनी को दिनांक 31.08.2024 तक कोई भी वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी सितम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह में ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित करने की दिशा में आगे की कार्यवाही करेगी। एक बार कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ को अंतरित कर देने के पश्चात, सम्बधित सदस्य ऐसे शेयरों पर दावा केवल आई ई पी एफ प्राधिकरण को ही इस हेतु नियत प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत कर सकेंगे। एक बार आई ई पी एफ को शैयर अंतरित करने के पश्चात ऐसे दावा रहित या भूगतान रहित शेयरों की वापसी के सम्बंध में कोई भी दावा कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक के दावा रहित या भूगतान रहित लाभांशों को कंपनी द्वारा पहले ही आई ई पी एफ में अंतरित किया जा चुका है।। इस हेतु किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण हेतु कृपया shambhu.singh@jkcement.com / sunilk@nsdl.com पर ई-मेल भेज कर अथवा टेलीफोन नं0 + 022 4914 2589/2700 पर फोन करके प्राप्त किया जा सकता है।

यह सूचना आई ई पी एफ प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण तथा धनवापसी) नियम 2016 के लागू प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशित की गयी है।



कृते जे. के. सीमेण्ट लिमिटेड शम्भू सिंह उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव आईसीएसआई मेम्बरशिप सं0 एफसीएस 5836

महीनों में वह अपने उत्पादों के दाम कितने बढ़ाएगी। मगर कोडक ब्रांड का लाइसेंस रखने वाली सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स जून में अपने टेलीविजन के दाम 3 से 5 फीसदी बढ़ाने की सोच रही है। जुलाई में एक बार फिर 3 से 5 फीसदी इजाफा किया जा सकता है। सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह

वीडियोटेक्स ने अभी तय नहीं किया है कि अगले कुछ

ने कहा कि कंटेनर के किराये बढ़ने के साथ ही कच्चा माल भी महंगा होता जा रहा है, इसलिए कंपनी को दोबारा कीमत बढ़ानी पड़ रही है। उन्होंने कहा, 'हालत बिल्कुल वैसी ही है, जैसी हमने महामारी के सालों में देखी थी। उस समय भी दाम लगातार बढ़ रहे थे और हमें तैयार उत्पाद की कीमत बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा था।

बजाज ने कहा. 'लागत बढने से उत्पादन का खर्च भी बढ़ गया है। इससे कार्यशील पुंजी की जरूरत बढ़ गई है, नकदी की आवक कम हो गई है, उत्पादन में ज्यादा समय लग रहा है और माल पहुंचाने के समय में भी पेच पड़ रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम माल पहुंचाने वाले अपने भागीदारों के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं और स्टॉक को ज्यादा समझबझ के साथ संभाल रहे हैं। वीडियोटेक्स ने अभी तो मामला संभाल लिया है और अगले तीन महीने के लिए उत्पादन की मांग परी करने लायक माल हमारे पास है।'

ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन ने कहा कि चीन में वृद्धि लौटती दिख रही है और अमेरिका में भी वृद्धि नजर आने लगेगी। उन्होंने कहा, 'इस वृद्धि से आने वाली मांग परी करने के लिए पर्याप्त माल इस समय दुनिया में नहीं है। मगर इस समय सबसे तेज वृद्धि भारत में ही हो रही है।

### सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (परसेवा)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, पत्ता - सीटीसी क्र. १९९/बी, प्रमिला अपार्टमेंट, तिसरा मजला, मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर, पुणे १६

### जाहीर समन्स

वादी - विदर्भ विकास को. ऑप. क्रेडिट सोसा.लि.. मंबई. पत्ता-कदमवाडी. पठाण चाळ. हनमान नगर. कांदिवली पर्व. मंबई

विदर्भ विकास को.ऑप.क्रेडिट सोसा. लि., मुंबई यांनी मा. सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा), महाराष्ट्र राज्य सह पत. फेडरेशन मर्या जि. पुणे या कार्यालयाकडे संस्थेच्या थकबाकीदार व त्यांचे जामीनदार यांच्या विरूध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळणेसाठी दावे दाखल केलेले आहेत. या सर्व थकबाकीदार व त्यांचे जामीनदार यांना त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी संधी देऊन दि. १७/०५/२०२४ <mark>रोजी मा. सहा. निबंधक सह.संस्था (परसेवा) पुणे</mark> जहर दारा महाकाली सहकारी पतपेढी. ७-१/५. त्रिवेणी संगम. महिंदा ॲण्ड महिंद्रा येलो गेटसमोर, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१ या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते. परंतु खालील जाबदार यांना वेळोवेळी सुनावणी नोटीस दिलेल्या पत्यावर आर. पी.ए.डी. द्वारे पाठवूनही ते सुनावणीस हजर राहिलेले नाहीत. आता त्यांना शेवटची संधी र्देऊन त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी **मा. सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा) पुणे शहर द्वारा महाकाली सहकारी पतपेढी, ७–१/५,** त्रि<mark>वेणी संगम, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा येलो गेटसमोर, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१</mark> या कार्यालयात दि. ०५/०६/२०२४ **रोजी सकाळी ११.३० वाजता** सुनावणीसाठी बोलविण्यात येत आहे. ते याही वेळी सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास त्यांचे सदरील दाव्याबाबत काही एक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून त्यांचेविरूध्द वसुली प्रमाणपत्र बाबतचा दावा निकाली काढण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

क्र.	कर्जदार/जामीनदार नाव	पत्ता	दावा क्र.	एकूण रक्कम
٤.	कर्जदार-संदिप सुदाम पाखरे	३८ पार्क रोड, सावित्री सदन, विलेपार्ले पूर्व, मुंबई	३२०	७१५३०/
	जामीनदार-सुषमा अविनाश धस	डी/४०५, झरना अंकलेवेश, आशा नगर, एक्सप्रेस हायवे,		
		कांदिवली, मुंबई		
	जामीनदार-अरूणा संदिप पाखरे	डी ब्लॉक, ठाकूर व्हिलेज, व्हॉइसरात कोट, कांदिवली पूर्व, मुंबई		
٦.	कर्जदार-संभाजी सुभाजी घाडगे	रूम नं.५, गोम्स कंपाऊंड महाराष्ट्र वेट एस्केल, साकीनाका	३२१	३१५४७/
		अंधेरी पूर्व, मुंबई		
	जामीनदार-मोहन निवृत्ती खिरेकर	तीन डोंगरी पोलीस लाईन, ए ६१, गोरेगाव पश्चिम, मुंबई		
	जामीनदार-गोपीनाथ गानू नाईक	रूम नं. सी ८, आसरा को.ऑ.क्रे.सो.लि., कांदिवली पूर्व, मुंबई		
₹.	कर्जदार-प्रशांत शांताराम आंब्रे	३ दुबे चाळ, आकुर्ली क्रॉस रोड नं.३, कांदिवली पूर्व, मुंबई	३२३	२०२०५
	जामीनदार-सुरेश रामा साळुंखे	जगदंबा चाळ, वडार वाडा, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड,		
		कांदिवली पूर्व, मुंबई		
	जामीनदार-विठ्ठल भीमराव मोरे	साईड ऑफ बेकरी, आंबेडकर चौक, क्रांती नगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई		



स्वाक्षरीत (हर्षित वसंतराव तावरे) मा.सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा) महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशन मर्या.

### सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (परसेवा)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, पत्ता – सीटीसी क्र. ११९/बी. प्रमिला अपार्टमेंट, तिसरा मजला, मॉडेल कॉलनी शिवाजीनगर, पुणे १६

### जाहीर समन्स

वादी – हतात्मा राजगुरू नागरिक सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई, पत्ता श्रीराम नगर, धोबीघाट, कटींग नं.५, कुरार व्हिलेज, मालाड पूर्व, बोरीवली, मुंबई

**हतात्मा राजगुरू नागरिक सहकारी पतपेढी मर्या. मुंबई** यांनी मा. सहा. निबंधक सह संस्था (परसेवा), महाराष्ट्र राज्य सह पत. फेडरेशन मर्या जि. पुणे या कार्यालयाकडे संस्थेच्या थकबाकीदार व त्यांचे जामीनदार यांच्या विरूध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अन्वये वसली प्रमाणपुत्र मिळणेसाठी टावे टाग्वल केलेले आहेत. या मुर्व थकुबाकीटार व त्याचे जामीनदार यांना त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी संधी देऊन दि. १७/०५/२०२४ रोजी मा. सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा) पणे शहर द्वारा महाकाली सहकारी पतपेढी, ७-१/५, त्रिवेणी संगम, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा येलो गेटसमोर, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१ या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते. परंतु खालील जाबदार यांना वेळोवेळी सुनावणी नोटीस दिलेल्या पत्यावर आर. पी. ए. डी. द्वारे पाठवूनही ते सुनावणीस हजर राहिलेले नाहीत. आता त्यांना शेवटची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी **मा. सहा. निबंधक सह.संस्था (परसेवा) पुणे शहर द्वारा महाकाली सहकारी पतपेढी, ७-१/५**, त्रि<mark>वेणी संगम, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा येलो गेटसमोर, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई–४००१०१</mark> या कार्यालयात दि. ०५/०६/२०२४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणीसाठी बोलविण्यात येत आहे. ते याही वेळी सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास त्यांचे सदरील दाव्याबाबत काही एक म्हणणे नाही असे गहीत धरून त्यांचे विरूध्द वसली प्रमाणपत्र बाबतचा दावा निकाली काढण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

क्र.	कर्जदार/जामीनदार नाव	पत्ता	दावा क्र.	एकूण रक्कम
۶.	जामीनदार-अशोक हनुमंत माने	रूम नं. ७७७, शांती सागर चाळ, नालंदा सोसायटीजवळ, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई	२९६	६७५३१५/-
٧.	कर्जदार-संजय रघुनाथ महाडीक जामीनदार-पवन मारूती कोतेकर जामीनदार-सागर अंकुश कदम	रूम नं. १९९२, बि.नं. ६२, समता नगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई रूम नं. १५, जीटीबी हॉस्पिटल, शिवाजी रोड, शीवरी, मुंबई रूम नं. १९९०, बि.नं.१०७, समता नगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई	२९७	१७८५९४/-
nv.	कर्जदार-जगन्नाथ नागेंद्र कदम जामीनदार-रफीक जिलानी शेख जामीनदार-अस्लम नबाब शेख	रूम नं. १/७, जयनारायण शुक्ला चाळ, कुरार गाव, मालाड पूर्व, मुंबई रूम नं. ३२, आझाद चाळ, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई रूम नं. ९९, आझाद चाळ, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई	२९८	१५९११/-
٧.	कर्जदार-स्मिता धर्मेश ढोलकीया जामीनदार-निर्मला किसन पाटील जामीनदार-धर्मेश ढोलकिया	३ बी, सरदार चाळ, एमडी रोड, रेल्वे पॉवर हाऊसजवळ, कांदिवली पूर्व, मुंबई पाटील चाळ, एमडी रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई रूम नं. ३, सरदार चाळ, शंकर मंदिराजवळ, एमडी रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई	२९९	९५५६१/-
ч.	कर्जदार-शंकर किसन पाटील जामीनदार-धर्मेश ढोलकिया जामीनदार-शमदास श्यामबिहारी	रूम नं.५, बाबुभाई दूधवाला चाळ, रामनगर, एमडी रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई रूम नं. ३, सरदार चाळ, शंकर मंदिराजवळ, एमडी रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई रूम नं. २, कपाडीया कांटेज, एमडी रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई	300	२३९३२/-
ξ.	कर्जदार-रविंद्र श्यामलाल जैस्वार जामीनदार-दगडू तुकाराम नाईकडे	आझाद नगर, वडार पाडा रोड, हनुमान नगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई १८/२४, आकुर्ली श्री साईकृपा को. ऑप. सोसा., म्हाडा कॉलनी, कांदिवली पूर्व, मुंबई	३०१	<i>७९४७९</i> /-



जाहीर नोटीस

सर्व संबंधितास कळविण्यात येते कि. सदनिका

क्र.२०३. क्षेत्र ८०८ चौफट म्हणजेच ७६.६३ चौमी

कारपेट, दुसरा मजला, सोबंत पझल मेकॅनिकल

केवा नॉन-मेकॅनिकल सिल्ट, कार पार्किंगमध्ये

एक कार पार्किंग, विलेपार्ले लिलीकुंज को.

ऑप. हौ. सो. लि., फायनल प्लॉट नं.४२०, टी. पी. एस. (पाच), जुना सि. टी. एस. नं. १५४५/१,

१५४५/२, १५४५/३ आणि १५४५/४, गावमौजे

वेले पार्ले (पूर्व), ता. अंधेरी, मुंबई उपनगर

जेल्हा हया मिळकतीवर आमचे अशिल दि

क्रेडरल बँक लि. कलिना शाखा यांच्याकडन धानीबेन लालजी वाविया व लालजी रणखोड

वाविया ह्यांनी कर्ज घेतले असन त्या करिता सदर

मेळकत गहाण ठेवली आहे, सदर मिळकती

संदर्भात विक्रम तळशीदास शाह (लिहन देणार)

आणि धानीबेन लालजी वाविया व लालजी रणछोड वाविया (लिहून घेणार) यांच्यातील मूळ

सेल डिड दि. ११/०२/२०२२, नींदणी क्र. बदर-

-२०२७/२०२२, दि. ११/०२/२०२२ व मूळ

तरी या संदर्भात जर कोणीही इसमांचा विक्री

गहाणवट, बक्षिसपत्र, दान, दावा, भाडेपट्टा, वैगरे

हक्काने एखादा बोजा असल्यास तो त्यांनी सदर

जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे

आत लेखी कागदोपत्री पुराव्यासहित

नेम्नलिखित स्वाक्षिकारांना मे. एस. पी.

कन्सलटंट, अनिता शॉपिंग सेंटर, १ला मजला,

<u> योस्ट ऑफिस समोर, वसई रोड (प.), ४०१२०२,</u>

पा पत्त्यावर कळवावा, नपेक्षा सदर

मिळकतीवर कोणाचाही कसल्याही प्रकारे

हक्क नाही व तो असल्यास सोडून दिलेला आहे

असे समजण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

अशिलांतर्फे ॲड. पायस डिमेलो

पावती गहाळ झाले आहेत.

स्वाक्षरीत (हर्षित वसंतराव तावरे) मा.सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा) महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशन मर्या

### HINDUSTAN UNILEVER LIMITED Registered Office: Unilever House, B D Sawant Marg, Chakala, Mumbai, Maharashtra- 400099

NOTICE is hereby given that the certificates for the under mentioned securities of the

Company have been lost/misplaced and the Legal heir of the said securities has applied to the Company to issue duplicate certificates

Any person who has claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date else the Company will

process to local aup.	ioato continuatos in			
Name of the holder, Folio No.	Kind of Securities and face value	No. of Securities	Certificate No.	Distinctive numbers
Late Deo Sharma	Equity shares	7	1353188	5151569-5151575
Saraswat	of face value	16	1353188	23537937-23537952
	Rs. 10/- each	1	1353188	30419911-30419911
Folio No.		37	1443457	96582100-96582136
HLL2947280		21	2265592	184765921-18476594
	TOTAL	82		
Diago: Mumbai Dat	o. 21 OE 2024			Daiooy Caracwai

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (परसेवा)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, पत्ता - सीटीसी क्र. ११९/बी, प्रमिला अपार्टमेंट, तिसरा मजला, मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर, पुणे १६

### जाहीर समन्स

वादी – श्रीधर को.ऑप.क्रेडिट सोसा.लि., मुंबई, पत्ता – भाग्यश्री अपार्टमेंट, संत मीराबाई मार्ग, घरटन पाडा नं. २,

श्रीधर को.ऑप.क्रेडिट सोसा.लि., मुंबई यांनी मा. सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा), महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशन मर्या जि. या कार्यालयाकदे संस्थेच्या थकबाकीटार व त्यांचे जामीनटार यांच्या विरूध्द महाराष्ट्र महकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळणेसाठी दावे दाखल केलेले आहेत. या सर्व थकबाकीदार व त्यांचे जामीनदार यांना त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी संधी देऊन **दि. १७/०५/२०२४ रोजी मा. सहा. निबंधक सह.संस्था (परसेवा) पुणे शहर द्वारा महाकाली** सहकारी पतपेढी, ७-१/५, त्रिवेणी संगम, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा येलो गेटसमोर, हनुमान नगर, आंकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१ या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते. परंतु खालील जाबदार यांना वेळोवेळी सुनावणी नोटीस दिलेल्या पत्यावर आर. पी. ए. डी. द्वारे पाठवूनही ते सुनावणीस हजर राहिलेले नाहीत. आता त्यांना शेवटची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी मा. सहा. निबंधक सह.संस्था (परसेवा) पुणे शहर द्वारा महाकाली सहकारी पतपेढी, ७–१/५, त्रिवेणी संगम, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा येलो गेटसमोर, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१ या कार्यालयात दि. ०५/०६/२०२४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणीसाठी बोलविण्यात येत आहे. ते याही वेळी सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास त्यांचे सदरील दाव्याबाबत काही एक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून त्यांचे विरूध्द वसुली प्रमाणपत्र बाबतचा दावा निकाली काढण्यात येईल

AIRIN	141			
क्र.	कर्जदार/जामीनदार नाव	पत्ता	दावा	एकूण रक्कम
			क्र.	
۶.	कर्जदार-सुभाष भाऊलाल कदम	रूम नं. ७, लाला मिस्कीन चाळ, केतकी पाडा, दहीसर पूर्व, मुंबई	३२४	९,५५,३२८/-
	जामीनदार-शिवशंकर बंसराज यादव	कांचवला कंपाऊंड, ए जोशी रोड, केतकीपाडा, दहीसर पूर्व, मुंबई		



(हर्षित वसंतराव तावरे) मा.सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा) महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशन मर्या

### सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (परसेवा)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, पत्ता - सीटीसी क्र. ११९/बी, प्रमिला अपार्टमेंट, तिसरा मजला, मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर, पुणे १६

### जाहीर समन्स

वादी- भगवान को. ऑप. क्रे. सोसा. लि. मुंबई, पत्ता १ / १०, आदर्शवाडी वेल्फेअर असोसिएशन, आकुर्ली रोड, दाम नगर. कांदिवली पूर्व, मुंबई

भगवान को. ऑप. क्रे. सोसा. लि. मुंबई यांनी मा. सहा. निबंधक सह संस्था (परसेवा), महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशन ार्या. जि. पुणे या कार्यालयाकडे संस्थेच्या थकबाकीदार व त्यांचे जामीनदार यांच्या विरूध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अन्वये वसली प्रमाणपत्र मिळणेसाठी दावे दाखल केलेले आहेत. या सर्व थकबाकीदार व त्यांचे जामीनदा यांना त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी संधी देऊन दि. १७/०५/२०२४ रोजी मा. सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा) पणे शहर द्वारा महाकाली सहकारी पतपेढी, ७-१/५, त्रिवेणी संगम, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा येलो गेटसमोर, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई ४००१०१ या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते. परंतु खालील जाबदार यांना वेळोवेळी सुनावणी . नोटीस दिलेल्या पत्यावर आर. पी. ए. डी. द्वारे पाठवूनही ते सुनावणीस हजर राहिलेले नाहीत. आता त्यांना शेवटची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे मांडणेसाठी <mark>मा. सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा) पुणे शहर द्वारा महाकाली सहकारी पतपेढी, ७-१/५, त्रिवे</mark>णी संगम, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा येलो गेटसमोर, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व, मुंबई ४००१०१ या कार्यात्यात दि. ०५/०६/२०२४ रोजी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणीसाठी बोलविण्यात येत आहे. ते याही वेळी सुनावणीस गैरहजर राहित्यास त्यांचे सदरील दाव्याबाबत काही एक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून त्यांचे विरूध्द वसुली प्रमाणपत्र बाबतचा दावा निकार्ल काढण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. प्रतिवादी -

क्र.	कर्जदार/जामीनदार नाव	पत्ता	दावा	एकूण रक्कम
			क्र.	
۶.	जामीनदार-मणिकंठ पासूदिन चेट्टीयार	दोरस्वामी चाळ, एमडी रोड, गणेश मंदिर, कांदिवली पूर्व, मुंबई	३०२	१३१९९२/-
	जामीनदार-प्रेमचंद रामजीत तिवारी	लोकमान्य चाळ, हनुमान नगर, आकुर्ली रोड, कांदिवली पूर्व मुंबई		
٦.	कर्जदार-किशोर शंकर पवार जामीनदार-विनय यशवंत पवार जामीनदार-अशोक गणपत सावंत	रूम नं.६, भगवान कृपा सोसा., उमेश नगर, डोंबिवली प., ठाणे माता रमाबाई आंबेडकर नगर, वरळी, मुंबई ४०००८२ रूम नं.६, भगवान कृपा सोसा., उमेश नगर, डोंबिवली प., ठाणे	303	८३२४६/-
₹.	कर्जदार-अशोक गणपत सावंत जामीनदार-किशोर शंकर पवार जामीनदार-संतोष शंकर पवार	रूम नं.६, भगवान कृपा सोसा., उमेश नगर, डोंबिवली प., ठाणे रूम नं. ६, भगवान कृपा सोसा., उमेश नगर, डोंबिवली प., ठाणे रूम नं. ६, भगवान कृपा सोसा., उमेश नगर, डोंबिवली प., ठाणे	308	१२६५४०/-
٧.	कर्जदार-शिवाजी वसंत कांबळे जामीनदार-लखमा वनशा वरटे जामीनदार-अनिल नारायण नाईक	एनडीए रोड, कोंढवे धावडे भीमनगर, पुणे जानुपाडा, दामू नगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई १३४/२५११, समता नगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई	३०५	१५५५२९/-
ч.	कर्जदार-चंदा जयसिंग पाणगे जामीनदार सोन्याबापू दत्तात्रय पिंगट जामीनदार-प्रकाश जयसिंग पाणगे	४०२, प्रभावती, सी विंग, केळीपाडा को. ऑ.ही.सो, कांदिवली पूर्व मुंबई सिंग इस्टेट रोड नं. ३, कांदिवली पूर्व, मुंबई ४०२, प्रभावती, सी विंग, केळीपाडा को. ऑ.ही. सो, कांदिवली पूर्व मुंबई	३०६	<i>-\७७६</i>
ξ.	कर्जदार-बालाजी वसंत कांबळे जामीनदार-गणपत गोविंद चौधरी	एनडीए रोड, कोंढवे धावडे भीमनगर, पुणे काशीबाई चाळ, केळीपाडा, कांदिवली पूर्व, मुंबई	३०७	१२८४४८/-
७.	जामीनदार-अर्चना अनंत मंचेकर	मु. पो. वेंगसर, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदूर्ग	३०८	१०९७५०/-



(दर्षित वसंतगव तावरे) मा.सहा. निबंधक सह. संस्था (परसेवा) महाराष्ट्र राज्य सह. पत. फेडरेशन मर्या.

स्वाधरीत

(Rs in Lakhs)

### NIDHI MERCANTILES LIMITED

Rego. Off: 67306-309, Dynasty Business Park, Opp. Sangam Cinema, A. R. Road, Andrien (E), Mumbal - 400009

Tel No.:022-61115222 | Fax No.: 022-28227865 | Email id: nml.mumbai@gmail.com | Website: www.nidhi.net.in | CIN: L51909MH1985PLC138577 EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31<sup>87</sup> MARCH, 2024

_		STANDALONE				CONSOLIDATED					
Sr. No.	Particulars	(	Quarter Endec	l	Year I	Ended		Quarter Ended	t	Year E	Ended
		31,03,2024 (Audited)	31,12,2023 (Unaudited)	31,03,2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31,03,2023 (Audited)	31,03,2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.20 (Audited
1	Total Income	335.27	331.49	119.67	1,087.16	507.58	335.27	331.49	119.67	1,087.16	507.5
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	206.21	194.30	82.40	708.52	408.36	206.21	194.30	82.40	708.52	408.3
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	206.21	194.30	82.40	708.52	408.36	206.21	194.30	82.40	708.52	408.3
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	155.65	145.66	60.35	532.31	306.90	155.65	145.66	60.35	532.31	306.
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	569.87	2,999.05	-1,263.83	8,162.06	-1,582.41	572.62	3,281.19	-1,118.39	9,120.71	-724.0
6	Paid up equity share capital (face value of Rs. 2/- per share)	125.61	125.61	125.61	125.61	125.61	125.61	125.61	125.61	125.61	125.6
7	Other Equity	-	-	-	24,294.49	16,132.42	-	-	-	26,204.82	17,084.1
8	Earning per share (before extraordinary item) of Rs.2/- each (*Not annualised)										
	1. Basic :	2.48*	2.32*	0.96*	8.48	4.89	2.52*	6.81*	3.28*	23.74	18.
	2. Diluted:	2.48*	2.32*	0.96*	8.48	4.89	2.52*	6.81*	3.28*	23.74	18.

Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant Rules thereunder. These results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company. The full format of the Financial Results are available on the Website of the Stock Exchange and the Company! Website www.nidhi.net.in

Figures of the previous periods have been regrouped/recast/reclassified wherever considerd necessary. 3 During the Year the Company has sold 13% of its investment in associate.

For and on Behalf of Board of Directors For Nidhi Mercantiles Limited

Managing Director (DIN: 06684211)

Sejal Sagar Modi

Date: 30th May, 2024

**VALECHA ENGINEERING LIMITED** 

(An ISO 9001-2015 Company) CIN: L74210MH1977PLC019535 or, Andheri New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053. Email : ho@valecha.in Website : valecha.i EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

_	( < in crores ) except era											
Sr.	Particulars			STANDALONE			CONSOLIDATED					
No.		For the quarter ended on			For the year ended on		For the quarter ended on			For the year ended on		
		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	
1 2	Income from Operation Net Profit / (Loss) for the period	15.93	8.12	10.95	57.01	90.07	19.42	9.03	19.10	70.56	113.69	
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.44	(0.48)	(14.91)	(1.50)	(17.65)	(50.27)	(52.12)	(57.09)	(197.70)	(197.58)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	0.44	(0.48)	(14.91)	(1.50)	(17.65)	(50.27)	(52.12)	(344.48)	(197.70)	(484.97)	
Ī	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.44	(0.48)	(14.91)	(1.50)	(17.65)	(50.27)	(52.12)	(344.48)	(197.70)	(484.97)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)											
6	and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital	0.53 22.53	(0.49) 22.53	(17.18) 22.53	(1.44) 22.53	(17.66) 22.53	(50.18) 22.53	(52.13) 22.53	(346.75) 22.53	(197.64) 22.53	(484.98) 22.53	
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			22.00	22.00	22.00		22.00				
l	1. Basic: 2. Diluted:	0.20 0.20	(0.21) (0.21)	(6.62) (6.62)	(0.67) (0.67)	(7.83) (7.83)	(22.31) (22.31)	(23.13) (23.13)	(152.90) (152.90)	(87.75) (87.75)	(215.26) (215.26)	

The above audited Financial Results were prepared by the Management of the Company and RP took the same on record basis. The Statutory Auditors have carried out the audit of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024 vide their report dated May 30, 2024.

The above is an extract of the detailed format of audited Financial results for the Quarter and Year ended 31st March 2024, filed with the Stock Exchanges, under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial results for the Quarter and Year ended 31st March,2024 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.valecha.in

For VALECHA ENGINEERING LIMITED
Anurag Kumar Sinha Resolution Professional Of Valecha Engineering Limited (IBBI/IPA-001/1P-P00427/2017-18/10750) ÀFA No. AA1/10750/02/211224/106688

# शिथिलता नाहीच; नविन लोकसभा स्थापित होईपर्यंत आचारसंहिता कायम

मुंबई, दि. ३० राज्यातील दृष्काळाची करण्यासाठी परिस्थिती पाहता राज्यातील निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरू लागली असली तरी आचारसंहिता अद्यापपर्यंत सूरु असून त्यात कोणत्याही प्रकारची शिथिलता देण्यात आलेली नाही. निवडणूकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर नवीन लोकसभा स्थापित झाल्याची अधिसूचना आयोगाकडून प्रसिद्ध होईपर्यंत आचारसंहिता कायम राहणार असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र अजून काही दिवस आचारसंहिता सूरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आचार संहिता कालावधीत एखाद्या अत्यंत तातडीच्या प्रकरणी आचार संहितेतून सूट देऊन कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, अशी प्रकरणे निवडणुक आयोगास शिफारस

अध्यक्षतेखाली छाननी समिती करण्यात आली आहे. सदर समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव या कार्यालयामार्फत भारत निवडणुक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात. निवडणुकीची आचार संहिता ्र**झाल्यापासून आतापर्यंत**च्या कालावधीत अशा एकूण ४९ प्रस्तावांवर भारत निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. तरी आचार संहिता कालावधीत आचारसंहितेचे कटाक्षाने पालन केले जाईल, याची सर्व संबंधितांद्वारे दक्षता घेण्यात यावी.

नाशिक व कोकण विभागातील विधानपरिषदेवरील दोन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. या रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला असून प्रसिद्धीपत्रक जारी केलेल्या दिनांकापासून संबंधित मतदारसंघात आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे.

CIN: L92130MH1997PLC107871

Regd. Office: 1, Silver Croft, Off TPS III, Junction of 16th & 33rd Road, Bandra West, Mumbai - 400050 Extract of the Standalone & Consolidated Audited Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2024

(Rs. In Lacs)										
PARTICULARS	01-01-2024 31-03-2024 Audited Standalone	01-01-2023 31-03-2023 Audited Standalone	01-10-2023 31-12-2023 Audited Standalone	01-04-2023 31-03-2024 Audited Standalone	01-04-2022 31-03-2023 Audited Standalone	01-01-2024 31-03-2024 Audited Consolidated	Audited	Audited	Audited	01-04-2022 31-03-2023 Audited Consolidated
Total Income from Operations	2.75	89.56	2.18	87.09	247.03	2.78	89.56	2.18	87.12	247.03
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(105.36)	(3,914.75)	(169.41)	(658.09)	(4,459.45)	(105.53)	(3,914.87)	(169.42)	(658.31)	(4,459.63)
(after exceptional and/or Extraordinary items)	(105.36)	(4,009.49)	(169.41)	(658.09)	(4,631.39)	(105.53)	(4,009.61)	(169.42)	(658.31)	(4,631.57)
	(197.02)	(2,176.37)	(169.41)	(749.76)	(2,798.28)	(197.19)	(2,176.50)	(169.42)	(749.98)	(2,798.45)
(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income					-					
(Face Value of Rs. 2/- per share)	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73
(Face Value of Rs. 10/- per share)	-					29.54	29.54	29.54	29.54	29.54
	(1,858,20)	(1,108.44)	(1,661.18)	(1,858.20)	(1,108.44)	(2,349.11)	(1,599.13)	(2,151.92)	(2,349.11)	(1,599.13)
	_	_	_	_			_		_	
1. Basic:	-	-	-		-	-	-		-	-
2. Diluted.	-								-	
	Total Income from Operations Net Profit(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit(Joss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit(Joss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive income for the year (Comprising Profit(Loss) for the period (after tax)) Equily Share Capital (Face Value of Rs. 2½ per share) Equily Share Capital (Face Value of Rs. 10½ per share) Earnings per Share of Rs. 2½ Earnings per S	PARTICULARS  31-03-2024 Audited Standalone  Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive income for the year (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- per share) Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share) Reserves (exclusing Revaluation Reserve) Earnings per Share of Rs.2/- each (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 2. Diluted.	PARTICULARS   31-03-2024   31-03-2024   31-03-2024   31-03-2025   31	PARTICULARS   31-03-2021   31-12-2022   31	PARTICULARS   31-03-2024   31-03-2023   31-12-2023   31-32-2024   Audited Standalone   Standal	PARTICULARS	PARTICULARS	PARTICULARS   31-03-2024   31-03-2025   31	PARTICULARS   31-03-2028   31	PARTICULARS   31-03-2024   31

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

RİCL

Place : Mumbai Date : 30.05.2024

### रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआयएन: L45400MH1984PLC032274 वेबसाइट: www.ricl.in ई-मेल: info@ricl.in

				(रु. लाखांत,	, उत्पन्न प्रतिशेअर	माहिती वगळता	
अ.			तिमाहीअखेर	वर्षअखेर			
娕.	तपशील	लेखापरीक्षित	पुनर्मूल्यांकन केलेले	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
		३१.०३.२०२४ रोजी संपलेली तिमाही	३१.१२.२०२३ रोजी संपलेली तिमाही	३१.०३.२०२३ रोजी संपलेली अनुषंगिक तिमाही	३१.०३.२०२४ रोजी संपलेले वर्ष	३१.०३.२०२३ रोजी संपलेले वर्ष	
٤.	परिचालनातून एकूण उत्पन्न	२८३.२२९	१०१७.७९	८८९.११	२७१४.९०	३८८०.६७	
٦.	कर व अपवादात्मक बाबीपूर्व निव्वळ नफा/(तोटा)	३४१.०४१	३७४.४२	४१४.७१	९०५.८१	६८२.२२	
₹.	करपूर्व अपवादात्मक बाबीपश्चात निव्वळ नफा/(तोटा)	३४१.०४१	३७४.४२	४१४.७१	९०५.८१	६८२.२२	
٧.	करपश्चात निव्वळ नफा/(तोटा)	२५७.८०३	३७४.४२	१०४.८५	८२४.३८	३७२.३६	
ч.	कालावधीकरिता एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (कालावधीकरिता (करपश्चात) नफा/(तोटा) व अन्य सर्वसमावेशक उत्पन्न (करपश्चात) यांचा समावेश)	-	-	-	-	-	
ξ.	प्रदानित समभाग भांडवल (दर्शनी मूल्य प्रत्येकी रु. १०/-)	२३०८.००	२३०८.००	२३०८.००	२३०८.००	२३०८.००	
<b>6</b> .	अन्य समभाग भांडवल (पुनर्मूल्यांकन राखीव वगळता)	-	-	-	(४४९१.८१)	-३६६७.४४	
८.	उत्पन्न प्रति समभाग (रु.) (दर्शनी मूल्य प्रत्येकी रु. १०/-)	-	-	-	-	-	
	मूलभूत	१.११७	१.६२	0.84	३.५७२	१.६१	
_	3 0						

टीपा :

. वरील तपशील हा सेबी (सूचिबद्धता अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजेसकडे दाखल करण्या लेखापरीक्षण समिती व संचालक मंडळाद्वारे त्यांच्या दि. २९.०५.२०२४ रोजी आयोजित सभेत मंजर दि. ३१.०३.२०२४ रोजीसंपलेली तिमाही व वर्षाकरिताच्या लेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांच्या विस्तृत प्रारूपाचा सारांश आहे. लेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट www.bseindia.com वर तसेच कंपनीची

> मंडळाच्या आदेशादा रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरित श्री. नितीन गुजराल

> > डीआयएन : ०८१८४६०५

ठिकाण : मुंबई दिनांक : २९.०५.२०२४

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED MAY 20. 2024.

AND THE LETTER OF OFFER DATED MAY 21, 2024



FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF SHARDUL SECURITIES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L50100MH1985PLC036937 Registered Office: G-12, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, Mumbai - 400021; Tel. No.: +91 22 46032806 / 22-46032807; Contact Person: Daya Bhalia, Company Secretary & Compliance Officer; Email id: investors@shriyam.com; Website: www.shardulsecurities.com

This Corrigendum to the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer, dated May 30, 2024 ("Corrigendum") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited ("Manager to the Offer") for and on behalf of A To Z Broking Services LLP ("Promoter Acquirer 1"), Rajesh Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 2"), Gagan Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 1"), 3") and Brijesh Devesh Chaturvedi ("Promoter Acquirer 4") (Hereinafter 'Promoter Acquirer 1', 'Promoter Acquirer 2', 'Promotel Acquirer 3' and 'Promoter Acquirer 4' Collectively Referred to as "Promoter Acquirers"), to the public shareholders of Shardul Securities Limited ("Company") in respect of the acquisition of up to 44,02,626 (Forty Four Lakhs Two Thousand Six Twenty Six) ("Offer Shares") equity shares of face value Rs. 10/- each ("Equity Shares") representing 25.16% of the paid up Equity Share Capital of the Company and consequent voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from the BSE Limited ("BSE"), the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed, pursuant to applicable provisions of the SEB Delisting Regulations ("Delisting Offer") and in accordance with the terms and conditions set out in the Initial Public Announcement dated December 15, 2023 ("IPA"), the Detailed Public Announcement dated May 20, 2024 published on May 21, 2024 ("DPA") in Business Standard (English-All Editions), Business Standard (Hindi – All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi – Mumbai Edition) and the Letter of Offer dated May 21, 2024 ("LOF").

The Promoter Acquirers vide their email dated May 29, 2024, had requested the Manager to the Offer to create a fixed deposit for the amount lying in the escrow account. Accordingly, a fixed deposit for an amount of ₹35,00,00,000/- (Rupees Thirty Five Crore) lying in the escrow account was created and a lien was marked in favour of the Manager to the Offer. Further, Kotak Mahindra Bank Limited (Escrow Bank) vide its email dated May 30, 2024, has provided confirmation on the creation of Fixed Deposit, Accordingly Public Shareholders are requested to kindly refer to below revised point in Detailed Public Announcement (20.4) and the Letter of

Accordingly, the aggregate amount of ₹ 68,35,57,000/- (i.e. More than 100% of the total consideration which is calculated on the basis of the Equity shares held by the Public Shareholders multiplied with the indicative price) is deposited in the Escrow account. Further, out of total cash deposited in the escrow account, a fixed deposit of ₹ 35.00.00.000/- (Rupees Thirty Five Crore) is created and a lien has been marked in favour of the Manager to the Offer on the said fixed deposit.

Public Shareholders are also requested to note that while remitting the remaining amount of Total Consideration i.e. ₹ 40,00,00,000/-(Rupees Forty Crore) into the Escrow Account on May 18, 2024, the amount was inadvertently remitted by the Acquirers to their other bank account, held with same Escrow Bank at the same branch where the Escrow Account is also held. The same was rectified and the funds were remitted to the Escrow Account on May 28, 2024.

This Corrigendum is being published in all the newspapers in which the DPA was published.

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning as assigned to them in the LOF.

Manager to the Offer Registrar to the Offer

### SAFFRON

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, 6th floor, Centre Point, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andher

(East), Mumbai - 400 059, Maharashtra, India, Tel. No.: +91 22 4973 0394; Fax: N.A.

E-mail id: delistings@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com

Investor grievance id: investorgrievance@saffronadvisor.com Validity of Registration: Permanent Contact Person: Saurabh Gaikwad / Satej Darde SEBI Registration Number: INM 000011211

Pravin Mundhwa\*

Signed by Pravin Mundhwa, for and on behalf of the Promoter Acquirers, holding Specific Power of Attorney dated 17" November, 2023

Place: Mumbai, Date: May 30, 2024

**LINK** Intime LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400 083 Tel: +91 810 811 4949; Fax: +91 22 49186060 **E-mail:**shardul.delisting@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in

Contact Person: Pradnya Karaniekar SEBI Registration No.: INR000004058 Validity Period: Permanent Registration

On the Behalf of Promoter Acquirers